

MAHAAN FOODS LIMITED

Registered Office: 406, 4th Floor, Worldmark 2, Asset No. 8, Aerocity Hospitality District, New Delhi-110037 India

Ref: BSE/MFL/2024-25 Date: May 31, 2024

To. The General Manager (Listing & Corporate Relations) Bombay Stock Exchange Limited P J Towers, Dalal Street Mumbai-400001

SUB: Newspaper Advertisement of the Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year ended on 31st March, 2024

Ref: Mahaan Foods Limited (Scrip Code: 519612)

Dear Sir.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed herewith the copies of Audited Standalone Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2024 as published in the following newspapers:

- 1. Financial Express (National Daily newspaper -All English Edition), on 31st May, 2024.
- 2. Jansatta (Daily Newspaper- All Hindi Edition), on 31st May, 2024.

This information will also be hosted on the Company's website, at www.mahaanfoods.com

We request you to kindly take this in your records.

Thanking You,

Yours faithfully

FOR MAHAAN FOODS LIMITED

Sanjeev Goyal Managing Director DIN: 00221099

CIN: L15419DL1987PLC350285

info@mahaanfoods.com

http://mahaanfoods.com

FINANCIAL EXPRESS



RAJNANDINI METAL LIMITED

Registered Office: Plot No. 344, Sector 3 Phase II, IMT Bawal - 123501 Harvana (India)

Phone: 01284-264194; Email: cfo@rajnandinimetal.com Website: www.rajnandinimetal.com CIN: L51109HR2010PLC040255

Rajnandini Metal Limited (hereinafter referred as "the Company") is looking for Financial Consultants / Debt Syndicates (Consultants) who can arrange unsecured debt up to Rs. 20.00 crore (Rupee Twenty Crores Only) for the Company. Consultants having minimum experience of five years in debt syndication can contact Mr. Manoj Kumar Jangir, Chief Financial Officer (CFO) at cfo@rajnandinimetal.com or call us at +91 93100 87021.

For Rajnandini Metal Limited Date: May 30, 2024 Manoj Kumar Jangir Place: Bawal CFO and Executive Director

INDO GULF INDUSTRIES LIMITED CIN: L7490DLI981PLC011425 4237/11, Ilnd Floor, Narendra Bhawan, 1, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002 Website: www.indogulfind.com, Email : igilinvestorgrievance@rediffmail.com Extract of Audited Standalone Financial Results for the quarter and year ended 31/03/2024 Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015

NO		31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.202 (Audited
1)	Total income from operations	5,510.25	3,843.72	5,188.53	17,924.53	20,695.3
2)	Net Profit/(loss) for the period (before tax and exceptional items)	9.11	(99.29)	247.79	226.10	677.6
3)	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items):	9.11	(99,29)	247.79	226.10	677.6
4)	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items)	83.48	(74.30)	241.38	147.78	643.6
5)	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	83.48	(74.30)	241.38	147.78	643.6
6)	Equity Share Capital	95.67	95.67	95,67	95.67	95.6
7)	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the audited Balance Sheet of the Previous year					20100
8)	Earnings per share (of Rs. 1/-each) not annualised for quarterly figures); a) Basic (Rs.) b) Diluted (Rs.)	0.87 0.87	(0.78) (0.78)	2.52 2.52	1.54 1.54	6.7 6.7

1) The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations; 2015 The full format of the Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website i.e www.bseindia.com and on the Company's website i.e www.indogulfind.com

 The Standalone financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards(Ind AS) notified under the Companies (Indian accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies. (Indian Accounting Standards) (Amendment, Rules, 2016. The Company has adopted Ind AS from 1st April 2016, with a transition date of 1st April, 2015 and accordingly these results (including for period ended 31st December, 2016 presented in accordance with Ind AS 101. For and on behalf of the Board of Directors

Indo Gulf Industries Limited Rajesh Jain Directors

Place : Dehradun Date : 30th May, 2024

Particulars

DIN: 01200520

DCM HYUNDAI LTD. CIN- U93090DL1995PLC273604

Regd. Office: 508, 5th Floor, Akash Deep Building, 26-A, Barakhamba Road. New Delhi -110001. Tel No. : (91) 11-43745000 Email: pawanlakhotia@dcmsr.com Website : www.dcmcontainers.com NOTICE

INFORMATION REGARDING 30TH ANNUAL GENERAL MEETING The 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video

Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) on Saturday, the 06th July, 2024 at 11:00 AM, in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made there under read with General Circulars 09/2023 dated 25:09:2023 and Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (collectively called "MCA Circulars") to transact the business set out in the Notice calling the e-AGM, which is being circulated for convening the AGM. Members will be able to attend the e-AGM through VC/ OAVM. Members participating through VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act; 2013. The instructions for joining the AGM will be provided in the notice of the AGM. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the financial statements for

the financial year 2023-24, along with Board's report, Auditor's report and other documents required to be attached thereto, will be sent by electronic mode to all the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.dcmcontainers.com and on the website of the CDSL at www.evotingindia.com. Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of

the AGM through electronic voting system ("e-voting"). The manner of voting remotely ("e-voting") by members has been provided in the Notice of the AGM which will be mailed around 6th June, 2024. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. In case of Member(s) who have not registered their email addresses with the

Company/Depository, are requested to please follow the below instructions to register their email addresses for obtaining Annual Report, Notice of the AGM and login details for e-voting and joining the AGM along with detailed instructions. Manner of registering / updating email addresses:

a. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), Self attested scanned copy of PAN card and Aadhar Card by email to pawaniakhotia@dcmsr.com

b. For Demat shareholders - Members holding shares in Demat mode can get their e-mail ID register by contacting their respective Depository Participant or by email to

pawanlakhotia@dcmsr.com along with the scanned copy of their request letter duly signed by the 1st shareholder, providing the email address, mobile number, self- attested copy of

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or during the e-AGM.

If you have any queries or issues regarding E-Voting, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738. Alternatively, you may contact to the Company at pawaniakhotia@dcmsr.com

For DCM Hyundai Limited

Place: New Delhi

Date: 30.05.2024

Sunil Kumar Chowdhary DIN: 08866999

S. No.

2

Place :- New Delhi

Date :- 29/05/2024

Revenue from Services

Profit/(Loss) Before Tax

Net Profit/ (Loss) after Tax

HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED REGD. OFFICE: "RADHIKA", 2ND FLOOR, LAW GARDEN ROAD, NAVRANGPURA, AHEMDABAD, GUJARAT Pin Code: 380009. Branch Office: BRANCH OFFICE: HDB Financial Services Limited,

Khasra No 47, Behind Ox Ford School, Vikaspuri Delhi 110018 Demand Notice Under Section 13(2) Of The Sarfaesi Act,2002

You the below mentioned borrower, co-borrowers and guarantors have availed loan(s)/ financial facility(ies) from HDB Financial Services Limited by mortgaging your immovable properties (securities) and defaulted in repayment of the same. Consequent to your defaults your loan was classified as nonperforming asset. Subsequently, the Company has issued demand notice under Section 13(2) of The Securitization And Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the Act), the contents of which are being published herewith as per section 13(2) of the act read with Rule 3(1 of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 as and by way of alternate service upon you. Details of the borrowers, co-borrowers, loan account no., loan amount, demand notice under section 13(2) date. amount claimed in the notice, NPA date and securities are given as under.

1) Name And Address Of The Borrower/co-borrower/guarantor; 2) Loan Account Number; 3) NO. Loan Amount; 4) Date Of Demand Notice; 5) Claimed Amount In Inr; 4) Details Of Securities; 7) Date Of Possession

1. Name Of The Borrower & Co-borrowers: Anupam Cards Shop No. 3791/14 Ground Floor Gall Lohe Wali Chawri Bazar Delhi-110006 Delhi Anupam Gupta House No. 152 Main Gagan Vihar Delhi-110092 Dhìresh Gupta House No. 152 Main Gagan Vihar Delhi-110092 Dhìresh Gupta Shop No. 3791/14 Ground Floor Gali Lohe Wali Chawri Bazar Delhi-110006 Delhi; Loan Account No. : 12916221, 465242 Loan Amount: Rs.421000/- (rupees Four Lakhs Twenty One Thousand Only)by Loan Account Number 12916221 And To The Tune Of Rs 2473172/- (rupees Twenty Four Lakhs Seventy Three Thousand One Hundred Seventy Two Only) By Loan Account Number 4652428, Demand Notice Date: 18.05.2024 Amount Claimed: Rs. 1702922.61- (rupees Seventeen Lakhs Two Thousand Nine Hundred Twenty Two And Paise Sixty Only) As Of 18,05,2024 And Future Contractual Interest Till Actual Realization Together With Incidental Expenses, Cost And Charges Etc. .npa Date : 04.05.2024: Details Of Security: All That Piece And Parcel Of The One Shop On Ground Floor Of Property Bearing No.-3791/1, Area Measuring 8.92 Sq. Mtrs. Without Roof Rights, Property Mpi No.-3791, Ward No. Vi, Gali-lohe Wali, Chawri Bazaar

2. Name Of The Borrower & Co-Borrowers: Dhananjay Agencies 1873/47 Naiwala Karol Bagh Delihi 110005 Delhi And Also Shop No. 1 Property Bearing No. Xvi/1763/1873(new) Khasra/plot Nos. 147,148 And 690 Delhi-110005 Ruchi Mehta C 1/92 Janakpun B-1 Delhi-110058 Delhi Rajesh Mehta C 1/92 li Floor Janak Puri B1 Delhi Delhi-110095 Delhi Loan Account No.: 14040907,14083902: Loan Amount Rs.700000/- (rupees Seven Lakhs Only) By Loan Account Number 14040907 And To The Tune Of Rs.10800000/- (rupees One Crore Eight Lakhs Only) By Loan Account Number 14083902, Demand Notice Date: 18.05.2024, Amount Claimed: Rs. 8123618.2/- (rupees Eighty One Lakhs Twenty Three Thousand Six Hundred Eighteen And Paise Twenty Only) As Of 18.05.2024 And Future Contractual Interest Till Actual Realization Together With Incidental Expenses, Cost And Charges Etc. .npa Date 04.05.2024 : Details Of Security: All The Peace And Parcel Of The Property Portion Bearing Private / Shop No.1 Part Of Property Bearing No. Xvi/ 1763/1873(new), Khasra/plot Nos.147, 148 And 690, Block-h.

Delhi-110006 Having Boundaries As Under - East-Part Of Property; West - Gall: North-Other Property

3. Name Of The Borrower & Co-borrowers: Gian Automobiles Ground Floor 146 Mehar Chand Market Lodhi Road Delhi-110003 Delhi And Also Shop No. 145 Mehar Chand Market New Delhi Delhi 110003 Manpreet Kaur E-2 Greater Kailash 3 Masjid Moth Delhi-110048 Surinder Singh Patyal E-2 Greater Kailash 3 Masjid Moth Delhi-110048 Maninder Singh Patyal E-2 Greater Kailash 3 Masjid Moth Delhi-110048 Gian Singh Patyal E-2 Greater Kailash 3 Masjid Moth Delhi-110048 Loan Account No. 15657735,7838548: Loan Amount: Rs.933000/- (rupees Nine Lakhs Thirty Three Thousand Only) By Loan Account Number 15657735 And To The Tune Of Rs.5000000/- (rupees Fifty Lakhs Only) By Loan Account Number 7838548, Demand Notice Date: 18.05.2024, Amount Claimed: Rs. 4487416.05/ (rupees Forty Four Lakhs Eighty Seven Thousand Four Hundred Stateen And Paise Five Only) As Of 18.95.2024 And Future Contractual Interest Till Actual Realization Together With Incidental Expenses. Cost And Charges Etc. .npa Date: 04.05.2024; Details Of Security: All The Piece And Parcel Of The Property Shop No 145, Mehar Chand Markt, New Delhi 110003

You the borrower/ co-borrowers and guarantors are therefore called upon to make payment of the above mentioned demanded amount with further interest as mentioned hereinabove in full within 60 days of this notice failing which the undersigned shall be constrained to take action under the act to enforce the above-mentioned securities.

(Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time

Please note that as per section 13(13) of the said Act, you are restrained from transferring the abovereferred securities by way of sale, lease or otherwise without our consent and any non compliance of

available, to redeem the secured assets."

Date: 31.05.2024 Place: Dalhi/NCR

section 13(13) of the Act is punishable under section 29 of the said Act. For Any Query Please Contact Mr. Arun Yadav Phone: 9350538386 / Mr. Vikas Anand (9711010384)

Sd/- Authorised Officer, FOR HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

NEW ERA LEASING AND FINANCE LIMITED Registered office: 23, Motia Khan, Rani Jhansi Road, New Delhi- 110055, CIN: L67120DL1984PLC018800

E-mail: neweraleasingfinance@gmail.com; Ph: 011-699999350; Website: www.neweraleasingfinance.com Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2024

SI.	Particulars		Quarter ende	d	Year ended		
No.		31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Un-Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	
1	Total Income from Operations	13.50	2.65	9.12	21.68	15.22	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2.60	(1.95)	2.33	2.19	1.89	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.60	(1.95)	2.33	2.19	1.89	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.05	(1.95)	2.33	1.64	1.40	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.05	(1.95)	2.33	1.64	1.40	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the financial year 2020-2021				-	-	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):						
	Basic:	0.0051	(0.0049)	0.0058	0.0041	0.0035	
	Diluted:	0.0051	(0.0049)	0.0058	0.0041	0.0035	

Date: 29.05.2024

Place:New Delhi

By order of the Board

The Company is having only one business activity so the segment reporting under Ind AS-108 is not required.

The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting

Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary to confirm to the periods of current periods.

Indian Accounting Standards are applicable on the Company w.e.f 1st April 2019.

On behalf of Board For NEW ERA LEASING AND FINANCE LIMITED **ROHTASH SHARMA**

(Director) DIN: 06804507

THE BIRLA COTTON SPINNING & WEAVING MILLS LTD. Corporate Identity Number: L65100DL1920PLC099621

Regd.Office: Hindustan Times House, Mezzanine Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110 001

Phone: 011-66561206, Email: secretarial.ht@rediffmail.com, Website: www.birlacotton.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

except per share data)

5.	HAZZYAYONAN GARAGORIAN N	Quarter Ended			Year Ended		
No.	Particulars	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	
		31-March-24	31-Dec-23	31-March-23	31-March-24	31-March-23	
1	Total Income from Operations (Net)	196	153	152	652	497	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, exceptional and extraordinary Items #	25	141	139	446	451	
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after exceptional and extraordinary Items #	25	141	139	446	451	
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after exceptional and extraordinary Items #	3	107	113	324	316	
5	Total comprehensive income for the period (comprising Profit*(-) Loss for the period (after tax) and other comprehensive Income (After tax) *	15	903	225	1,650	590	
6	Equity Share Capital	114	114	114	114	114	
7	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing operations-not annualised)	325234	VF <u>0</u> 1130 i	1920	22200	1022000	
	Basic	0.25	9.40	9.90	28.35	27.64	
	Diluted	0.25	9.40	9.90	28.35	27.64	

The auditors have conducted the audit of the financial result for the Quarter and year ended March 31, 2024. The results were reviewed by the Audit Committee. The Board has approved the financial results at its meeting held on May 30, 2024

2 The above financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles as prescribed vide Ind AS 34 "Interim Financial Reporting"

 Investment in shares (other than investment in Associates) have been measured and classified under "Fair Value through Profit & Loss as per option available under Ind-AS and Schedule III (Division-II) to the Companies Act.

ii) Investments in Debt based Mutual Funds (held not for trading) have been measured and classified under "Fair Value through Profit & Loss. 4 The figures of the corresponding quarter have been regrouped /reclassified, whenever necessary to confirm to current quarter

classification / presentation. 5 The above is an extract of the detailed format of Audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2024, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 along with review report of the Statutory Auditors

is available on our website at www.birlacotton.com and under Financial Results at Corporate section of www.cse-india.com. The Company does not have any exceptional and extraordinary items to report in above periods

For The Birla Cotton Spinning & Weaving Mills Ltd. PLACE: New Delhi

Ankush Singhal

DATE: 30.05.2024 (Director) DIN 10061148

IEC EDUCATION LIMITED CIN: L74899DL1994PLC061053

Regd. Office: E-578, FIRST FLOOR, GREATER KAILASH PART-II, NEW DELHI-110048 Webside: http://www.iecgroup.in, Tel.No:-011-41052893

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2024 Rs. In Lacs

		Consolidated					
S. No.	Particulars		Quarter endec	1	Year o	ended	
		31/03/2024	31/12/2023	31/03/2023	31/03/2024	31/03/2023	
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	
1	Total Income From Operations	0.00	0.00	0.00	0,00	32.01	
2	Net Profit / (Loss) (before tax exceptional, and/or Extraordinary items)	(30.51)	(6.29)	(16.70)	(63.58)	(23.09)	
3	Net Profit / (Loss) before tax (after exceptional, and/or Extraordinary items)	(30.51)	(6.29)	(16.70)	(63.58)	(23.09)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items and before minority interest)	(30.51)	(6.29)	(16.70)	(63.58)	(23.09)	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) (after minority interest)]	(30.56)	(6.23)	(16.75)	(62.99)	(22.04)	
6	Paid up Equity Share Capital	1526.00	1526.00	1526.00	1526.00	1526.00	
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year	1559.59	1559.59	1581.63	1559.59	1581.63	
8	EPS per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)					g.	
	Basic	(0.20)	(0.04)	(0.11)	(0.42)	(0.15)	
	Diluted :	10 MA AN W	300	O. 110 10	- ASH - MC - S		

Quarterly / Yearly Financial Results are available on the Website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com Notes :-The aforesaid Financial Results have been subjected to limited review of Statutory auditors and reviewed by the

Audit Committee and Subsequently approved by the Board of Directors Meeting held on May 29, 2024 Figures for Prior Period have been regrouped and or rearranged, wherever necessary

The standalone financial results are available on the website of the Stock Exchange, i.e. www.bseindia.com. Key standalone figures are as follows

Rs. in Lacs Quarter ended Year ended **Particulars** 31/03/2024 31/12/2023 31/03/2023 31/03/2024 31/03/2023 Audited Audited Unaudited Audited Audited

financialexp.epapr.in

0.00

(29.78)

(63.20)

0.00	0.00	0.00	32.01
(6.28)	(14.55)	(62.35)	(20.95)
(6.28)	(14.55)	(95.77)	(20.95)
			of the Board ducation Ltd. Sd/- Navin Gupta

CIN: L15201HR1999PLC034125

KMG MILK FOOD LTD.

Regd. Office: 9TH KILOMETER STONE PIPLI TO AMBALA, VILLAGE MASANA, KURUKSHETRA, HARYANA- 136118 E-mail: compliances.kmg@gmail.com

Extract of audited Financial Results for the Quarter & Year ended on 31.03.2024

	Med Debbyych and Moto II.		Quarter ended	Year ended		
SI.	Particulars	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
No	111.000104.0	Audited	Un-audited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations (net)	143.74	72.23	202.85	287.63	1355.86
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax Exceptional and or Extraordinary items)	20.82	9.87	11.01	8.34	20.83
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and or Extraordinary items)	20.82	9.87	11.01	8.34	20.83
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and or Extraordinary items)	23.71	9.87	17,17	11.22	27
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the Period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	23.71	9.87	17.17	11.22	27
6	Equity Share Capital	530.46	530.46	530.46	530.46	530.46
7	Earnings Per Share (before extraordinary items (of Rs.10/- each)	0.00	0.47	0.55	0.00	0.70
	Basic:	0.03	0.47	2.55	0.02	2.73
	Diluted:	0.03	0.47	2.55	0.02	2.73

(Rs. in Lakhs)

The above is an extract of the detailed format of Yealy Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the websites of the Company at www.kmggroup.com and at the Stock Exchange website www.bseindia.com

2. The above Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director's of the Company

The above Un-Audited Financial Results is subject to Audit Report as furnished by the Statutory Auditors and approved by the Board of Directors of the Company as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Discloser Requirements) Regulations, 2015"

Basudev Garg Date: 29.05.2024 Chairman Place: Kurukshetra (Haryana) DIN: 00282038

20UIL25

Equitas Small Finance Bank Ltd

(FORMERLY KNOWN AS EQUITAS FINANCE LTD) Registered Office: No.769, Spencer Plaza, 4th Floor, Phase-II, Anna Salai, Chennai - 600002.

DEMAND NOTICE - NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

NOTICE is hereby given that the following borrower/s have availed loan from Equitas Housing Finance Limited (EHFL) / Equitas Finance Limited (EFL) / Equitas Small Finance Bank Ltd (ESFB). The said borrower/s had/have failed to pay Installments and their loan account has been classified as Non-Performing Asset as per the guidelines issued by RBI. The details of the secured immovable propert/ties, loan and the amounts outstanding as on date payable by the borrower/s are mentioned below. The borrower(s) and the public in general are informed that the undersigned being the Authorized Officer, the secured creditor has initiated action against the following borrower(s) under the provisions of the SARFAESI Act, 2002 and not to deal with the said property. on failure to repay the outstanding dues indicated against their names within 60 (Sixty) days of this notice, the undersigned will exercise any one or more of the powers under sub-section (4) of Section 13 of the SARFAESI Act, including power to take possession of the property/ies and sell the same.

SR NO	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)(NAME OF THE BRANCH)	Demand Notice Date and Amount	Description of Secured Asset (Immovable Property)
1	Branch: JIND L.No: EMFIBJND0052086 Borrower: MR.SUKHVINDER Co – Borrower: MRS.ROSHINI	15-05-2024 & 187619	Item-1, All that pieces and parcels of non-agriculture property being Residential property having area measuring 500 sq yards=16M-5S being 37/220 share of total land measuring 5K-10M comprised in khewet no. 263, khatauni no.290 Murabba no.51, killa no.11/4,11/5,11/6,11/11,11/12,11/16, khasra no. 371 & 372,kitte 8 situated at Radhana, Tehsil & District Jínd vide transfer deed no.3824 dated 20-10-2022. North by: Kacchi gali 82', South by: Plot of sajjan 82', East by: Plot of Roshni devi 55', West by: Plot of Ajmer 55'. Measurement: 500 sq yards Situated at within the Sub-Registration District of Radhana and Registration District of Jind.
2	Branch: SIRSA L.No: ELPIBSRS0033391 Borrower: MR.VISHNU BHAGWAN Co – Borrower: MRS.SALOCHANA DEVI	15-05-2024 & 1294872	Item-1, All that pieces and parcels of non-agriculture property being Residential property having area measuring 1512.5 sq yards=2K-10M which is comprised in khewet no.266, khatauni no.338 Murabba no.94, Killa no.16/1/2 which is bounded as East -P/o Rajbala (123'0"), West- Street 123' ,South- Agree. land of Krishan Kumar (107'6") and North- P/o Government situated at VPO Burj Bhango, Tehsil & District Sirsa with all rights appurtenant thereto vide transfer deed no. 11858 registered at SRO Sirsa dated 17-11-2021, Mutation no. 2174 dated 9-12-2021 and vide jamaband for the years of 2017-18. North by: P/o Government (107'6"), South by: Agree. Land of Krishan Kumar (107'6"), East by: P/o Smt. Rajbala (123'0"), West by: Rasta (123'0"). Measurement: 1512.5 sq yards Situated at within the Sub-Registration District of Sirsa and Registration District of Sirsa
Date	- 31.05.2024,Place - Har	yana	Authorized officer, Equitas Small Finance Bank Ltd

Mahaan Foods Limited Regd. Office: Office No.406, 4th Floor, Worldmark 2, Asset No.8, Aerocity Hospitality District, New Delhi-110037

Tel: 011-43107200, Fax: 011-43107250, E-mail: csmfl@mahaanfoods.com, Website: www.mahaanfoods.com CIN: L15419DL1987PLC350285 Statement of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31-03-2024

(Amount in Rs. Lacs except EPS data) Quarter Ended Year Ended **Particulars** 31.12.2023 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2024 31.03.2023 No Audited Unaudited Audited Audited Audited Total income from operations 125.08 114.39 52.97 32.35 39:00 29.33 Net Profit / (Loss) for the period 42.44 25.02 88.43 79.27 (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before 42,44 25.02 88.43 79.27 29.33 Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax 31.63 (12.73)20.11 66.31 58.05 (after Exceptional and/or Extraordinary items) (12.73)Total Comprehensive Income for the 31.63 20.11 66.31 58.05 period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital 350.07 (12.73)350.07 350.07 350.07 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 1598.18 1531.87 as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -0.90 (0.36)0.57 1.89 1.66 1. Basic: 1.66 0.90 (0.36)0.57 1.89 2. Diluted:

The above Financial Results of the Company have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 29th May, 2024. The Statutory Auditors have expressed their unmodified opinion on these results.

The above is an extract of the detailed format of audited financial results for the quarter and year ended 31st March, 2024 filed with the stock exchange under Regulation33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended from time to time). The full format of the audited financial results for the quarter and year ended 31st March, 2024 is available on the Company's website (www.mahaanfoods.com) and on the website of the stock exchange where the Company's equity shares are listed viz. BSE Limited Figures of the previous periods have been regrouped/rearranged/reclassified, wherever necessary to comply with financial reporting

For Mahaan Foods Limited Sanjeev Goyal

CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

NOTE:

Place: New Delhi

Date: 29/05/2024

ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

Demand Notice

Managing Director

Demand Notice

DIN: 00221099

Corporate Office: R-Tech Park, 10th Floor, Nirlon Complex, off Western Expressway, Goregoan East - Mumbai - 400063. Branch Office: 2nd Floor, Vijaya Building, 17, Barakhamba Road, New Delhi-110001 DEMAND NOTICE U/S 13(2) OF THE SARFAESI ACT - 2002

Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat-362266.

You the below mentioned borrower has availed loan by mortgaging the schedule mentioned property and you the below mention has stood as

borrower / Co - borrower /Mortgagor for the loan agreement. Consequent to the default committed by you, your loan account has been classified as NPA under the provisions of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (in short SARFAESI Act). We **Aditya Birla Finance Limited** has issued Demand Notice u/s 13(2) read with section 13(13) of the SARFAESI Act to the address furnished by you. The contents of the said notices are that you had committed default in payment of the verious loans sanctioned to you. Therefore, the present publication carried out to serve the notice as per the provision of Section 13(2) of SARFAESI Act and in terms of provision to the rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Loan Account No./ Name and Address of the account Amount due as per Date of

Borrower(s), Co-Borrower(s) & Guarantor(s)

Loan Account No ABFLND_LAP0000102873 1.M/s. Global Electricals, Through Partners, 511, Industrial Area, Sonepat, Haryana- 131001. Also At: D- 87, Maksudabad Colony, Najafgarh Ext, Delhi- 110043. Also At: Unit No. 41- A & 41-B, Ground Floor, Eros Metro Mall, Plot No.8, Sector-14, Dwarka, New Delhi- 110075. 2.Parminder Singh Sehrawat, D- 87, Maksudabad Colony, Najafgarh Ext, Delhi - 110043. Also At: Unit No. 41- A & 41-B, Ground Floor, Eros Metro Mall, Plot No.8, Sector-14, Dwarka, New Delhi- 110075. 3.Ekta Sehrawat, D- 87, Maksudabad Colony, Najafgarh Ext, Delhi- 110043. Also At: Unit No. 41- A & 41-B, Ground Floor, Eros Metro Mall, Plot No.8, Sector-14, Dwarka, New Delhi- 110075. 4. Yujvender Singh, D- 86, Maksudabad Colony, Najafgarh Ext, Delhi- 110043. Also At: Unit No. 41- A & 41-B, Ground Floor, Eros Metro Mall, Plot No.8, Sector-14, Dwarka, New Delhi- 110075. 5. Devender Singh, D- 87, Maksudabad Colony, Najafgarh Ext, Delhi- 110043. Also At: Unit No. 41- A & 41-B, Ground Floor, Eros Metro Mall, Plot No.8, Sector-14, Dwarka, New Delhi- 110075. 6. M/s New India Solution, Through Proprietor, Plot No. 87, Kh. No. 155/6, Najafgarh Extn. D- Block, Nangloi Road, Delhi- 110043. Also At: Unit No. 41- A & 41-B, Ground Floor, Eros Metro Mall, Plot No.8, Sector-14, Dwarka, New Delhi- 110075.	22.05.2024 NPA Date 15.05.24	Rs. 35,28,194/- (Rupees Thirty Five Lakh Twenty Eight Thousand One Hundred Ninety Four Only) As on 17.05.24
"DETAILS OF SECURED ASSETS TO BE ENFORCED"		

All that piece and parcel of: "Property No. Unit No. 41- A & 41-B, Ground Floor, Eros Metro Mall, Plot No.8, Sector-14, Dwarka, New Delhi-

You are hereby called upon to pay **Aditya Birla Finance Limited** within the period of 60 days from the date of publication of this Notice the aforesaid amount with interest and cost failing which **Aditya Birla Finance Limited** will take necessary action under the Provisions of the said Act against all or any one or more of the secured assets including taking possession of secured assets of the borrower / Co - borrower / Mortgagor. The power available to the Aditya Birla Finance Limited under the said act include (1) Power to take possession of the secured assets of the borrower Co - borrower / Mortgagor including the rights to transfer by way of lease, assignment of sale for releasing secured assets (2) Take over management of the secured assets including rights to transfer by ways of lease, assignment or sale and realize the secured assets and any transfer as of secured assets by Aditya Birla Finance Limited shall vest in all the rights and relation to the secured assets transferred as if the transfer has been made by you.

In terms of the Provisions of the Section 13/13) of the said act, you are hereby prohibited from transferring, either by way of sale, lease or otherwise (other than in the normal course of your business), any of the secured assets as referred to above and hypothecated / mortgaged to the **Aditya** Birla Finance Limited without prior written consent of the Aditya Birla Finance Limited.

DIN:00097128

Managing Director

New Delhi

Date: 31.05.2024, Place: New Delhi Authorised Officer, Aditya Birla Finance Limited

DIN: 01200520

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 29/05/2024

स्थान : नई दिल्ली

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिव्या ओबरॉय तथा उमा ओबारॉय के नाम में स्थित एसीसी लि. के फोलियो नं. D000019084 के अंतर्गत 700 शेयर्स, नं. 12723921-12724620 के प्रमाणपत्र गुम अथवा स्थानच्युत हो गये हैं तथा अधोहस्ताक्षरी ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिये कम्पनी में आवेदन किया है।

यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में उक्त शेयर प्रमाणपत्र हो अथवा उक्त शेयरों के प्रति कोई दावा हो वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर सीमेन्ट हाउस, 121 महर्षि कार्वे रोड, मुम्बई 400020 में कम्पनी के शेयर विभाग को सचित करें तथा ऐसे दावे दाखिल करें जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा तथा कम्पनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अभिमुख होगी। हस्ताक्षरित, दिव्या ओबेरॉय स्थानः गुडगाँव

तिथि: 29 मई, 2024 उमा ओबेरॉय

इन्डो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L7490DL1981PLC011425 4237/11, II रा कल, संस्ट्र भयन, 1, अंसारी रोड, रास्या गंज, नई दिल्ली-110002 वैद्याप्तर: www.indogulfind.com f मेल igilinvestorgrievance@rediffmail.com

क्रम सं.	विश्वल्या	शसप्त तिसारी 31.03.2024 (अवेडिस)	समाप्त निष्यती ३१.१२.३०२४ (अनेकेविता)	धमान तिमहो 31,03,2024 (अकेकिन)	समाप्त वर्ष 31:03:2024 (अकेशित)	समाप्त सर्व ३१.०३.२०२४ (अफेडिस)
0.	प्रचालनों से कुल आप	5,510.25	2.643.72	5,188.53	7,924.53	25,655,33
2)	अवधि के लिए लुद्ध लाग/ (डानि) (कर तथा अववदित मद्यें से पूर्व)	9,11	(99.29)	247.79	226.10	677.68
30	कर से पूर्व अर्थाय के लिए शुद्ध लाक (शनि) (वितिष्ट मदी के बाद)	9.11	199.290	247.79	226.10	677.48
4)	कर संबद्ध अर्थाध के लिए गुद्ध साथ (तानि) (विश्वता गर्दी के बाद)	83.43	(74.30)	241.38	147.78	643.49
50	अर्थाय के लिए कुल व्यापक आप (अर्थाय के लिए (शाध/हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर में बाद) लाभ/(हानि) में शाब्तिल)	83.48	(74.30)	241,38	147.73	643.93
60	इक्टिटी हेयर पूजी	15.67	25.67	15.67	95.67	15.67
ħ	आर्थित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोडकर जैसा कि पूर्व वर्ष के अकेश्वित तूलन पत्र में प्रदर्भित है।			+		
8)	अग्य प्रति शैषर (रु. 1)- प्रति का) (तिमातो आकरों के लिपे व्यक्तियेकृत नहीं) मूल एवं तरल (रु.)	0.07 0.07	(3.76) (3.78)	2.52 2.52	1.54	6.73 6.73

1) एक्पोबन मेथी (मुचीयन दाकित एवं प्रत्य उद्घाटन प्रपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंती में दाखिल वार्षिक विशोध परिणामी के विस्तृत प्रारूप का सार है। वार्षिक विशोध कंपनी परिणामी प्रारूप का सन्पूर्ण प्रारूप स्टीक एक्सचेन की वेबसाहट www.bscindia.com तथा कम्मनी की वेबसाहट अर्जन (www.indogulfind.com) पर एक्टराव्य है।

a)कम्पनी के स्टैंडएलॉन वितीय परिणामी को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक)(संशोधन) निवनायली, 2016 द्वारा यथा-संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) के अंतरीत अधिसुधित भारतीय लेखा मानक (इंड ए एत) के अनुसार तैयार किया रूप है। ा अप्रैल, 2016 को संख्यम विधि के साथ । अप्रैल, 2016 से कंपनी इंड ए एस अपनई है एवं तदनुसार इन परिणामी (S1 रिसम्बर, 2016 की सम्बन्त अवधि लहित) की इंड ए एस 101 के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

निहेशक मंदल के लिए क्या उनकी और मे इन्हों गलक इंडस्ट्रीज राजेश जैन स्थानः देहरादुन तिथि: 30 मई, 2024

ईमेलः toshainternational@yahoo.com

तोशा इन्टरनेशनल लिमिटेड CIN: L3210DL1988PLC119284 पंजी. कार्या.: ई-34, दूसरा तल, कनॉट सर्कल, नई दिल्ली सेन्ट्रल, दिल्ली-110001

क्र सं	विवरण	समाप्त तिमाही 31.03.2024 अंकेक्षित	पूर्व वर्ष में समाप्त तत्स्थानीय तिमाही 31.03.2024 अंकेक्षित	चालू वर्ष में समाप्त पूर्व तिमाही 31.03.2023 अनंकेक्षित	समाप्त वर्तमान तिमाही 31.03.2024 अंकेक्षित	समाप्त पूर्व वर्ष 31.03.2023 अंकेक्षित
1	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	2.33	0.00	0.00	2.33	0.00
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	-80.66	-45.45	-66.75	-286.37	-182.37
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	-80.66	-45.45	-66.75	-286.37	-182.37
4	अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	-80.66	-45.45	-66.75	-286.37	-182.37
5	इक्विटी शेयर पूंजी	1144.93	1144.93	1144.93	1144.93	1144.93
6	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	-2569.81	0.00	0.00	-2569.81	0.00
7	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं) क) मूल : ख) तरल :	-0.70 -0.70	-0.40 -0.40	-0.58 -0.58	-2.50 -2.50	-1,59 -1.59

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिये अंकेक्षित रिपोर्ट पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। 2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के स्टॉक एक्स्चैंज में दाखिल की गर्द वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्स्चैंज की वेबसाईट www.cse-india.com तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.toshainternattionallimited.in) पर उपलब्ध है।

कृत्ते, तोशा इन्टरनेशनल लिमिटेड

तिथि: 30.05.2024 डी के करनानी निदेशक स्थानः दिल्ली

क्लासीफाइड

PUBLIC NOTICE Ve, Sudershan Kumar Jain and Sunita Jain, residents of RZ-33A, Rati Ram Park, Naya Bazar, Najafgarh, South West Delhi, Delhi - 110043, hereby inform the public at large that we have disowned our son, Shubham Jain, with immediate effect. This decision has been taken due to the significant financial losses incurred by Shubham Jain recently, for which we bear no responsibility, Henceforth, we shall not be responsible for any liabilities, debts. or obligations incurred by Shubham Jain, and he shall not be entitled to claim any right, title, or interest in our properties furthermore, anyone dealing with him shall be doing so at his own risk and responsibility. We urge all concerned authorities and individuals to take note of this discovnment. Ashutosh Gupta (Advocate)

Indo Legal Services Mobile: 9871433339

सार्वजनिक आवश्यक सूचना एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अमुक सम्पति का मूल बैनामा दस्तावेज संख्या 2380 दिनांकित 30.3. 1999 के खोने के सम्बन्ध में बैंक द्वारा थाना गोमती नगर लखानक में प्राथमिकी की गयी है। विदित हो कि श्री राजीव कुमार कटियार पुत्र श्रीकृष्ण कांत कटियार द्वारा अपना गृह ऋण समाप्त करा लिया गया है और सम्पति बंधक उन्मोचित हो गयी है और बैंक का उस पर से अब धारणाधिकार नहीं है। सम्पति के विधिक खामी ही किसी प्रकार भी संव्यवहार के लिए स्वतंत्र

शाखा वैयक्तिक बैंकिंग विपुल खंड गोमती नगर मुख्य प्रबंधक सम्पर्क करें- 0522-4333946

PUBLIC NOTICE Information is given to general public at large that my client Priyanka Ranjan who large that my client Privanka Ranjan who is the owner of Upper Ground Floor (said Floor) built up on Property bearing No. 8-7, area 140 sq.yds., out of Khasra No.645, 651,806,644, 841,805,644, situated at Sawan Park, in the area of Wazapper, Delhi hy virtue of Sale Deed dated 25.07,2022 executed by 1) Khandelwal, 2) Narendra Kumar Khandelwal, 3) Sameer Khandelwal & 4) Ankur alias Rishi Khandelwal regd, at Doc. No. 12188. Book No. 1, Vol. No. 10988 at Pages 39 48 on 25.07,2022 SR-VIA, Delhi. Initially, the said property belonged to Mis Shalco Udyog through partner to Mis Shalco Udyog through partner R.K.Khandewal through Sale Deed dated 30.07.1991 executed by Bhisham Raj. Mr. Krishan, Kumer, Khandelwal (one of the partner! expired and Partnership firm was dissolved and devolved upon all the partners namely 1) Khandelwal (30% share) 2) Narendra Kumar Khandelwa (30% share) 3) Sameer Khandelwal (20% share) 8: 4) Ankur alias Rishi Khandelwal (20% share), Sameer Khandelwal & Ankur Khandelwal inherited the share of Mr. K. K. Khandelwal by virtue of repd. Will dated 13.12.1994 which has not been probated from Court of competent Jorisdiction wh Now, my client intends to sell the said property to intended purchaser, Any person(s), institution(s) having an im and/or objection in respect of said property shall communicate the same the undersigned at our address within 10 days from publication of this notice with documentary evidence in support thereof, failing which all the claim, of such person(s)(institution(s) shall not be binding upon the said property or purchaser. Mohd K. Hussain (Advocate) 46/8, 2nd Fl. Jhandewaler Extr., N. D. 55 Mob. 8810391672, P. No. 011-35688622

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

ADITYA BIRLA

CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात-362266 कॉपोरेट कार्यालयः आर-टैक पार्क, 10वाँ तल, निर्लोन कॉम्पलैक्स, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, गोरेगाँव ईस्ट- मुंबई-400063 शाखा कार्यालयः दूसरी मंजिल, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001

मांग सूचना सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत

बंधककर्ता बने हैं। आपके द्वारा की गई चुकों के फलस्वरूप वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफासी अधिनियम) के तहत आपका ऋण खाता एनपीए वर्गीकृत किया गया है। हम आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ने आपके द्वारा दिए गए पते पर प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 यथासंशोधित के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना जारी की थी। उक्त सूचनाओं की विषय-वस्तु है कि आपको प्रदान विविध ऋणों के भुगतान में आपने चुक की है। इसलिए, सरफासी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधान और प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार यह प्रकाशन सूचना देने के लिए किया गया है

ऋण खाता सं./खाता, कर्जदार (ओ), सह-कर्जदार (ओं) और जमानती (ओं) के नाम और पते	मांग सूचना की तारीख	मांग सूचना के अनुसार देय राशि
ऋण खाता ABFLND_LAP0000102873 1.मेसर्स ग्लोबल इलेक्ट्रिकल्स, थ्रू पार्टनर्स, 511, इंडस्ट्रियल एरिया, सोनीपत, हरियाणा- 131001. यह भी देखें: डी-87, मकसुदाबाद कॉलोनी, नजफगढ़ एक्सटेंशन, दिल्ली- 110043। यह भी पढ़ें: यूनिट नंबर 41- ए और 41-बी, ग्राउंड फ्लोर, इरोस मेट्रो मॉल, प्लॉट नंबर 8, सेक्टर -14, द्वारका, नई दिल्ली- 110075। 2. परिमंदर सिंह सहरावत, डी-87, मकसूदाबाद कॉलोनी, नजफगढ़ एक्सटेंशन, दिल्ली - 110043। यह भी पढ़ें: यूनिट नंबर 41- ए और 41-बी, ग्राउंड फ्लोर, इरोस मेट्रो मॉल, प्लॉट नंबर 8, सेक्टर -14, द्वारका, नई दिल्ली- 110075। 3. एकता सहरावत, डी-87, मकसूदाबाद कॉलोनी, नजफगढ़ एक्सटेंशन, दिल्ली- 110043। यह भी पढ़ें: यूनिट नंबर 41- ए और 41-बी, ग्राउंड फ्लोर, इरोस मेट्रो मॉल, प्लॉट नंबर 8, सेक्टर -14, द्वारका, नई दिल्ली- 110075। 4. युजवेंद्र सिंह, डी-86, मकसूदाबाद कॉलोनी, नजफगढ़ एक्सटेंशन, दिल्ली- 110043। यह भी पढ़ें: यूनिट नंबर 41- ए और 41-बी, ग्राउंड फ्लोर, इरोस मेट्रो मॉल, प्लॉट नंबर 8, सेक्टर -14, द्वारका, नई दिल्ली- 110075। 5. देवेंद्र सिंह, डी- 87, मकसूदाबाद कॉलोनी, नजफगढ़ एक्सटेंशन, दिल्ली- 110043। यह भी पढ़ें: यूनिट नंबर 41- ए और 41-बी, ग्राउंड फ्लोर, इरोस मेट्रो मॉल, प्लॉट नंबर 8, सेक्टर -14, द्वारका, नई दिल्ली- 110075। 6. मेसर्स न्यू इंडिया सॉल्यूशन, प्रोपराइटर के माध्यम से, प्लॉट नंबर 87, ख नंबर 155/6, नजफगढ़ एक्सटेंशन। डी-ब्लॉक, नांगलोई रोड, दिल्ली- 110043। यह भी पढ़ें: यूनिट नंबर 41- ए और 41-बी, ग्राउंड फ्लोर, इरोस मेट्रो मॉल, प्लॉट नंबर 8, सेक्टर -14, द्वारका, नई दिल्ली- इरोस मेट्रो मॉल, प्लॉट नंबर 8, सेक्टर -14, द्वारका, नई दिल्ली- 110075।	22.05.2024 एनपीए तिथि 15.05.24	रु. 35,28,194/- (रुपये पैंतीस लाख अट्ठाईस हजार एक सौ चौरानवे) 17.05.24 तक

प्रवर्तन की जाने वाली प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण" -🍬 संपत्ति सं. यूनिट नंबर 41- ए और 41-बी, ग्राउंड फ्लोर, इरोस मेट्रो मॉल, प्लॉट नंबर 8, सेक्टर -14, द्वारका, नई दिल्ली 110075।

आपको उपरोक्त राशि ब्याज व लागत सहित **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** को उक्त मांग सूचना की तारीख से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर्जदारों, बंधककर्ताओं और जमानतियों की प्रत्याभृत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने सहित सभी या किसी और अधिक प्रत्याभृत परिसंपत्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगा। उक्त अधिनियम के तहत **आदित्य बिरला फाइनेंस** लिमिटेड के पास उपलब्ध शक्तियों में शामिल है (1) प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त करने के लिए पट्टे, बिक्री के असाइनमेंट द्वारा हस्तांतरण के अधिकारों सहित कर्जदारों / जमानतियों की प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लैने की शक्ति (2) पट्टें, असाइनमेंट या बिक्री द्वारा हस्तांतरण अधिकार सहित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन का अधिग्रहण और प्रत्याभृत परिसंपत्तियों की वस्ली और **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** द्वारा प्रत्याभृत परिसंपत्तियों का कोई भी हस्तांतरण सभी अधिकारों से और प्रत्याभृत हस्तांतरित परिसंपत्तियों के संबंध से उसी प्रकार से अधिकत होगा जैसे हस्तांतरण आपके द्वारा किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के प्रावधानों के अनुसार आप एतद्वारा उपरोक्त कोई और **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** को रेहन / बंधक प्रत्याभृत

परिसंपत्ति को **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया को छोड़कर) किसी तरीके से

हस्तांतरित करने के लिए निषिद्ध होंगे। दिनांक: 31.05.2024, स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड्ला फाइनेंस लिमिटेड

महान फूड्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 406, चतुर्थ तल, वर्ल्डमार्क 2, एसेट नं. 8, एरोसिटी हॉस्पिटेलिटी डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली-110037 दूरभाष : 011.43107200ए फैक्स : 011.43107250ए - ई–मेल : csmfl@mahaanfoods.com, वेबसाइट : www.mahaanfoods.com, सीआईएन : L15419DL1987PLC350285 31_03_2024 को समाज दियारी दथा वर्ष के एकल लेखाएरीसित दिनीय परिवार्ग का दिवस

क्र.			समाप्त तिमाही		समाप्त	त वर्ष
सं.	विवरण	31.03,2024 लेखापरीक्षित	31.12.2023 अलेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित	31.03.2024 लेखापरीक्षत	31.03.2023 लेखापरीक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	52.97	32.35	39.00	125.08	114.39
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	42.44	25.02	29.33	88.43	79.27
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	42.44	25.02	29.33	88.43	79.27
4.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	31,63	(12.73)	20.11	66.31	58.05
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	31.63	(12.73)	20.11	66.31	58.05
6.	समता अंश पूंजी	350.07	(12.73)	350.07	350.07	350.07
7.	आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन—पत्र में निदर्शितानुसार			*	1598.18	1531.87
8.	आय प्रति अंश (रु. 10/— प्रत्येक का) (परिचालनरत् एवं अपरिचालित परिचालनों हेतु) 1. मूलभूत : 2. तरलीकृत :	0.90	(0.36) (0.36)	0.57 0.57	1.89 1.89	1.66 1.66

लेखापरीक्षकों ने इन परिणामों पर अपनी असंशोधित राय प्रकट की है। उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 (समय–समय पर संशोधितानुसार) के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध 31 मा 2024 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश हैं। दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पू प्रारूप, कंपनी की वेबसाइट (www.mahaanfoods.com) पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जहाँ कंपनी के समता अंश सूचीबद्ध हैं, उदाइरणार्थ बीएसई लिमिटेड (www.bscindia.com)

पूर्ववर्त्ती अवधियों के आंकड़ों को वित्तीय प्रतिवेदनीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करने के उद्देश्यार्थ, जहाँ भी अनिवार्य समझा गया है, वहाँ—वहाँ पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है। कृते महान फूड्स लिमिटेड संजीव गोयल

प्रबंध निदेशक दिनांक : 29-05-2024 डीआईएन : 00221099

equitas

इक्विटास स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड (पूर्वतः इक्विटास फाइनैंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध)

पंजीकृत कार्यालय : नंबर 769, स्पेन्सर प्लाजा, चतुर्थ तल, फेज-।।, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002

मांग सचना - सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13 (2) के तहत सूचना एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार⁄रों ने इक्विटास हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (ईएचएफएल)/ इक्विटास फाइनैंस लिमिटेड (ईएफएल) / इक्विटास स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड (ईएसएफबी) से ऋण प्राप्त किया है।

उक्त कर्जदार किश्तें चुकाने में असफल रहे थे/हैं और उनका ऋण खाता आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा चुका है। प्रत्याभूत अचल सम्पत्ति / सम्पत्तियों, ऋण और कर्जदार द्वारा अद्यतन देय बकाया राशियों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। कर्जदार(रों) तथा सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्याभृत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्नलिखित कर्जदार(रों) के विरूद्ध सरफासी ऐक्ट, 2002 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही आरंभ कर दी है तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करें। उनके नाम के सामने निदर्शित बकाया राशि इस सूचना के 60 (साठ) दिन के भीतर चुकाने में असफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसको सरफासी ऐक्ट की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें सम्पत्ति / यों का कब्जा लेना और उनको बेचना

क्र.	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों)	मांग सूचना	प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन					
सं.	का नाम	तिथि और	(अचल सम्पत्ति)					
	(शाखा का नाम)	राशि						
1.	शाखा : जींद	15-05-2024	आइटम–1, गैर–कृषि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय सम्पत्ति क्षेत्रफल परिमाप					
	एल. नंबर :	एवं	500 वर्ग गज यानी 16एम—5एस, जो खेवट नंर 263, खतौनी नंबर 290, मुरब्बा नंबर 51,					
	EMFIBJND0052086	187619	किला नंबर 11/4, 11/5, 11/6, 11/11, 11/12, 11/16, खसरा नंबर 371 एवं					
	कर्जदार :		372, कित्ते 8 में शामिल कुल भूमि परिमाप 5के—10एम का 37 / 220 भाग है, जो राधना,					
	श्री सुखविंदर		तहसील एवं जिला जींद में स्थित है देखें ट्रांसफर डीड नंबर 3824 दिनांकित					
	सह–कर्जदार :		20—10—2022, उत्तर : कच्ची गली 82', दक्षिण : सज्जन का प्लॉट 82', पूरब : रोशनी					
	श्रीमती रोशिनी		देवी का प्लाट 55', पश्चिम : अजमेर का प्लॉट 55' परिमाप : 500 वर्ग गज					
			सब-रजिस्ट्रेशन जिला राधना और रजिस्ट्रेशन जिला जींद के भीतर स्थित					
2.	शाखा : सिरसा	15-05-2024	आइटम-1, गैर-कृषि सम्पित्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय सम्पित्ति क्षेत्रफल परिमाप					
	एल. नंबर :	एवं	1512.5 वर्ग गज यानी २के—10एम, जो खेवट नंर २६६, खतौनी नंबर ३३८, मुरब्बा नंबर					
	ELPIBSRS0033391	1294872	94, किला नंबर 16/1/2 में शामिल है, चौहद्दी— पूरब : पी/ओ राजबाला (123'0"),					
	कर्जदार :		पश्चिम : गली 123', दक्षिण : कृष्ण कुमार की कृषि भूमि (107'6") तथा उत्तर : पी/ओ					
	श्री विष्णु भगवान		सरकार, जो वीपीओ बुर्ज भांगों, तहसील एवं जिला सिरसा में स्थित है, उसके सभी अनुषंगी अधिकारों सहित, देखें ट्रांसफर डीड नंबर 11858 एसआरओ सिरसा में पंजीकृत					
	सह–कर्जदार :		दिनांकित 17—11—2021, म्युटेशन नंबर 2174 दिनांकित 09—12—2021 तथा देखें जमाबंदी					
	श्रीमती सलोचना देवी		वर्ष 2017—18, उत्तर : पी/ओ सरकार (107'6") , दक्षिण : कृष्ण कुमार की कृषि भूमि					
			(107'6") , पूरव : पी /ओ राजबाला (123'0"), पश्चिम : रास्ता 123', परिमाप : 1512.5					
			वर्ग गज , सब–रजिस्ट्रेशन जिला सिरसा और रजिस्ट्रेशन जिला सिरसा के भीतर स्थित					
तिथि	तिथि : 31—05—2024 स्थान : हरियाणा प्राधिकृत अधिकारी, इक्विटास स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटे							

द बिरला कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L65100DL1920PLC099621 पंजीकृत कार्यालय : हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, 9वां तल, 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 दुरभाष : 011-66561206, ई-मेल : secretarial.ht@rediffmail.com, वेबसाइट : www.birlacotton.com

क्र.	विवरण	4	समाप्त वर्ष				
सं.		लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	
		31-मार्च-24	31-दिस23	31-मार्च-23	31-मार्च-24	31-मार्च-2	
1	प्रचालनों से कुल आय (निवल)	196	153	152	652	49	
2	अवधि हेतु (कर, विशिष्ट तथा असाधारण मदों से पूर्व) निवल लाभ/(हानि) #	25	141	139	446	45	
3	अवधि हेतु कर पूर्व (विशिष्ट तथा असाधारण मदों के पश्चात) निवल लाभ/(हानि) #	25	141	139	446	4	
4	अवधि हेतु कर पश्चात (विशिष्ट तथा असाधारण मदों के पश्चात) निवल लाभ/(हानि) #	3	107	113	324	3	
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि (कर पश्चात) हेतु लाभ /*(-) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)				1		
	शामिल) *	15	903	225	1,650	5	
6	इक्विटी शेयर पूंजी	114	114	114	114	1	
7	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक) (सतत प्रचालनों हेतु- वार्षिकीकृत नहीं)						
	मूल डाइल्यूटेड	0.25 0.25	9.40 9.40	9.90 9.90	28.35 28.35	27 27	

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों लेखापरीक्षा लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी। इन परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी। बोर्ड ने 30 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इसे अनुमोदित किया। 2. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों को इंड एएस 34 ''अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग'' के माध्यम से निर्धारित मान्य एवं मापन सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किया गया है।

3. (i) शेयरों में निवेश (एसोसिएट्स में निवेश के अतिरिक्त) को इंड-एएस और कम्पनी अधिनियम की अनुसूची III (डिवीजन-II) के तहत उपलब्ध विकल्प के अनुसार लाभ एवं हानि के माध्यम से ''उचित मूल्य'' के तहत मापित और वर्गीकृत किया गया है। (ii) ऋण आधारित म्यूचुअल फण्ड में निवेश (ट्रेडिंग हेतु धारित नहीं) को लाभ एवं हानि के माध्यम से ''उचित मूल्य'' के तहत मापित और वर्गीकृत किया गया

वर्तमान तिमाही के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए जहाँ आवश्यक समझा गया, संगत तिमाही के आँकड़ों को पुनर्समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया

उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की समीक्षा रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप हमारी वेबसाइट www.birlacotton.com तथा www.cse-india.com के कॉर्पोरेट खण्ड में वित्तीय परिणाम के तहत उपलब्ध है।

कम्पनी के पास उपर्युक्त अवधि में रिपोर्ट करने के लिए कोई विशिष्ट तथा असाधारण मद नहीं है।

कृते द बिरला कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 30.05.2024 अंकुश सिंघल

(निदेशक) डीआईएन : 10061148

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

(सीआईएनः एल74899डीएल1995पीएलसी064007)

पंजीकृत कार्यालय : 128, प्रथम तल, शिवा मार्किट, पीतमपुरा, उत्तरी दिल्ली—110034 ई-मेल आईडी : cs@grmrice.com, वेबसाइट : www.grmrice.com दूरभाष : 011-47330330, फैक्स नं. : 011-0180-2653673,

31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के समेकित एवं एकल वित्तीय परिणामों का सारांश (सेबी (एलओडीआर) विनियमावली 2015 के विनियम 47(1) (बी) के निबंधनों के अंतर्गत)

(जांचा त्याज्य में)

(रु. लाख में, प्रति

क्र. सं.		एकल समेकित									
	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		31.03.2024 (लेखापरीक्षित)	31.12.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)	31.12.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)
1,	परिचालनों से कुल राजस्व	36,544.35	35,746.60	35,938.36	1,18,582.93	1,26,246.34	40,593.24	38,248.42	43,362.64	1,31,244.18	137946.21
2.	अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1,917.60	1,796.62	1,440.59	6,735.72	7,460.40	2,669.79	2,082.78	1,796.93	8,045.77	8739.97
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	1,917.60	1,796.62	1,440.59	6,735.72	7,460.40	2,669.79	2,082.78	1,796.93	8,045.77	8739.97
4.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	1,567.91	1,326.29	885.16	5,138.82	5,356.42	2,116.53	1,549.25	1,127.89	6,071.90	6,286.22
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट)	1,571.57	1,328.93	885.03	5,150.46	5,358.33	1,786.54	1,507.40	2,113.38	5,707.96	7190.81
6.	अनियंत्रणकारक ब्याज के फलस्वरूप कुल व्यापक आय						66.77	9.61	-18.33	93.78	18.54
7.	नियंत्रणकारक ब्याज के फलस्वरूप कुल व्यापक आय						1,719.76	1,497.79	2,131.72	5,614.17	7172.28
8.	प्रदत्त समता अंश पूंजी (रु. 2/— प्रति अंश का अंकित मूल्य)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1200
9.	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन—पत्र में निदर्शितानुसार										
10	आय प्रति अंश (रु. 2/— प्रत्येक का) (परिचालनरत् तथा अपरिचालित परिचालनों के लिये)—						-1-711				
	1. मूलभूत :	2.61	2.21	1.48	8.56	8.93	3.53	2.57	1.88	10.12	10.45
	2. तरलीकृतः	2.61	2.21	1.48	8.56	8.93	3.53	2.57	1.88	10.12	10.45

टिप्पणी : उपरोक्त सारांश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। त्रैमासिक 🖊 वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर तथा कंपनी की वेबसाइट www.grmrice.com पर भी उपलब्ध हैं।

कृते जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

हस्ता./-अतुल गर्ग प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 02380612